https://archive.org/details/bk1487/page/n0/mode/1up

2010-12-27 Before -Aagam (Bhavishya) Vaani Bhag 2 (1487)

All items on https://archive.org/details/realpatidar

realpatidar.com

Full Library on https://realpatidar.com/library

ॐ नमो जय श्री तत्सत हरी ॐ

" वेदोऽखिलो धर्म मूलम् "

श्री सतपंथ ज्ञान साहित्य संगम

यानेे

गद्यपद्य सार संग्रह

आगम (भविष्य) वाणी

संकलन कर्ता

श्री. शंकरलालजी संपत अथर्व वेदी

संस्कृत—विभाग

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n1/mode/1up

Real Patidar Library

https://www.realpatidar.com/library

This book/literature/article/material may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden.

The library does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The library shall not be liable for any loss, actions, claims, proceedings, demand, or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material.

Full terms and conditions of use: http://www.realpatidar.com

About Real Patidar books

Real Patidar's mission is to organize the information on Satpanth religion, which is a Nizari Ismaili sect of Shia branch of Islam, and to make it universally accessible and useful. Real Patidar Books helps readers discover the material on Satpanth online while helping authors and researchers in their studies. You can know more by visiting http://www.realpatidar.com

You can resize and move this box in any PDF Application like Adobe Acrobat Reader.

No specific pages. See whole book.
References by: RealPatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n2/mode/1up

realpatidar.com

ॐ नमो जय श्री तत्सत हरी ॐ

" वेदोऽखिलो धर्म मूलम् "

श्री सतपंथ ज्ञान साहित्य संगम

याने

गद्यपद्य सार संग्रह

आगम (भविष्य) वाणी

संकलन कर्ता
श्री. शंकरलालजी संपत अथर्व वेदी

संस्कृत—विभाग

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n3/mode/1up

realpatidar.com

" भाग 2 "

।

संस्कृत (देव) भाषा

संस्कृत:—यह भारत वर्षकी सर्व प्रथम प्राचीन भाषा है। इसको देव-वाणी (देवताओकी भाषा) की नामसे पैछानते है। यह देव-भाषा संस्कृतनें से ही वेदोका प्रथम प्रसार और प्रचार हुवा है।

जिस किसीको पूर्व-प्राचीन साहित्योमे से कुछ संस्कृति देखना हो तो इस संस्कृत देवभाषाका ही सहारा लेना भाग पडता है; और जो पूर्व प्राचिन "संस्कृति" इस देव भाषा संस्कृतमें मिलती है: वह कोई भी अन्योन्य भाषा(ओ) मे नही मिलेगी।

वास्ते:—इस संस्कृत भाषाका मेरे को मेरे मनकी "इस्तिछाह=रितभात और रूचि; भावना प्रमाणे जो प्रेम है; वह यहाँ पर किसी अन्यको समझाने के लिये, मै मुंगा=मूक=तोतला जैसा हि, अनपढ जैसा हैं।

फिर भी मेरे को "संस्कृत" भाषाकी रूचि; प्रेम; सद्भाव होने से यहाँ पर कलीयुगका कुछ भविष्यकारोका भविष्य एवं अन्योन्य कुछ विचार-विनिमय संस्कृत मे लेनेका था, वह इस साहित्यमें। फटे-तुटे कागदोमें से मिल आया, उसीका यहाँ पर संकलन रूपमें उपयोग मात्र किया है। फिर भी विचार करता हूं:-संस्कृत भाषा के साथ साथ अन्योन्य कोई भी प्राकृत भाषा(ओ) को मै गलत नही समझता कारणः—मेरे को तो अर्थ भावार्थ समझमे आवे उतना ही अच्छा. अब जादा क्या लिखुं? आप ओजो तो मेरे से ज्ञान-बुद्धिमें विशेष हो वास्ते:—माफी चाहता हूं. अस्तू।

संकलन कर्ता

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n4/mode/1up

realpatidar.com

भूमिका

अथि महानुभावा इच्छा एताहशी मनसि प्रभूतासे यदहं भवतां सम्मुखे विशेषां वेदान्तपद्धतीं विन्यस्तां कुर्याम, परं विद्वन्मण्डलीमुखस्थितां निरीक्ष्य प्रहर्षितोऽहं शिश्यवदात्मानं विधाय शैलीं पठितां प्रकटितां कुर्वे, आशाञ्च दधे, त्रुटिं मे संशोधितां विधास्यन्ति भवन्तः। वेदान्तविषयस्तु गहनसागरः, किन्तु पारं सर्वैं गन्तव्यमस्ति केवलं पारे गमनं न कर्तव्यं सर्वेषामपि तु तत्त्वमुक्तामयान्वेषणं प्रधानं कार्यं विद्यते ऽस्माकं! वेदान्तविषये जगच्छून्यं दुःखागारं बाधोपेतं भवेत् परमेषारूढिः स्थूलतां निवारयन्ती सूक्ष्मविषये प्रसभं प्रक्षिपति चेतो मनुजानाम्। एतेन नित्यतां सर्वेषां बोधयति च। स्पष्टतयाऽतः कथ्यते, यदेतज्ज जगत् नाऽनित्यं, परं सत्यमेव। वयं चेतनधियो नित्याः सत्याश्च सम्भारा अप्यस्मांकं नित्याः क्रियाश्च सत्याः परं सूक्ष्मदृष्ट्या। ऋतं च सत्यं चाऽभिद्धात्तपसोऽध्यजायतेति वेदोक्तिः। अनेनोपायेन मानवानामुत्साहो वर्धते, मानवाः प्रायो विचारभावं गवेषयन्ति, यदि दुःखं बाधा कस्याऽपि सम्मुखमायाति, तर्हि शीघ्रमसौ चिन्तयति स्वात्मनो नित्यतां सौख्यभावं च। अनया प्रथयास्वविकारान् स्वयमेव जयति स दुःखिमनुजः विकार शून्यतामधिगम्य ब्रह्मसादृश्य माप्नोति सर्वं खलु ब्रह्मेति तथ्या भवति वेदवाणिः। मनुजस्तु पुनः सर्वेषां हितायचिन्तयति लक्ष्यम् न द्वेषं कुरुते न रागञ्च केनाऽपि सह। न च निन्दां परेषाम्। सर्वान् स्वाऽत्मनः प्रभूतान् वा ऽत्मानस्तत्त्वंविदित्वा तत्सेवां विदधाति। सच्चरित्रधारामाप्नुवन् मुहुर्मुहु लौकिपरलोकाऽधिपत्यमनुतिष्ठति। पुनर्वेदान्त प्रथैवसर्वेषां हृदयानि हरति माधुर्यात् तर्हि सुखमयं भवति जगत्। इदानीस्तु सच्चरित्रस्य महती वर्तते आवश्यकता, यदाऽधुनिका विविधबाधाभिर्हतोत्साहा न कर्मठ-

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n5/mode/1up

realpatidar.com

शक्ति पश्यन्ति न धारयन्ति धैर्यम । व्यसनपङ्कपतिता नात्मानं शुद्धं कुर्वन्ति केवलं यथा कथञ्चिज् जीवनं यांपयितुं विचारयन्ति यदि जीवने दुःख मापतेत्, तर्हि पशुवत् पराधीनाः स्व बलिदानं मोघमेव विदधति, निजात्मनो विशालतां नित्यतां न मन्वते । अतः पाश्चात्यशिक्षाशिक्षिता लोका भारतीयानां प्राचीनवेदान्तपद्धतीं कटुतयाविदन्ति । चरित्रह्रासे नात्मनि बलं भवति । अतो भारतीया वेदान्ततत्त्वं विस्मृत्य कार्यतश्थाऽन्वेषणपतिता अन्याश्चपि पातयन्ति । अत आत्मशुद्धि विना वेदान्ततत्त्वबोधः कथं जायते, यदिवयं स्थूलजगतः खण्डनं कुर्मः तर्हि कथनमेतदावश्यकीयं वर्तते, सूक्ष्म भावैः सत्तमेव जगत् स्थूलं जगत् नश्वरं, वयमपिसत्याः । अनेनोत्साहेन भौतिकोन्नतिं भारतीया न विस्मरिष्यन्ति । अतोवेदान्तविदां कथनं सत्यमेव । यल्लोकपरलोकोन्नतिरेव वेदान्ततत्त्वम् । यथा पूज्यपादयोगीराजस्य कृष्णास्य चरित्रम् । तथा विदेहजनकस्य गाथा च दक्षिणाऽधिपतेः शिवस्य लीला, राजस्थानप्राणस्य राणाप्रतापस्य कृत्यमेव वेदान्ततत्त्वम् यदेते सदैव जीविता ब्रह्मरूपाः । वयं विदेश शिक्षाप्रभाविता न जानीमः स्वशास्त्रशिक्षाप्रभावन् । अतो वेदान्त भवैरेव सर्वनिषेधविधिं न प्राप्नुयाम, यया पतनाऽवस्थां दृष्ट्वाऽपि न परिवर्तनोपायं चिन्तयामः सर्वं नित्य मिति वेदान्त प्रथाया एतस्याः स्वामिरामतीर्थ विवेकानन्दाऽऽदिभिरेषां विचाराणां च प्रचारो विहितः । अतोवच्मि सत्यम् । सर्वे भूता न सत्याः सर्वाणि वस्तूनि न नित्यानीति पद्धति रघुना न सफला भविष्यति वेदान्तप्रचारे । वयं भौतिकोन्नतिं विधायैव सूक्ष्म विचारेण सर्वस्मै दत्वाऽधिकारं सर्वेषांहितचिन्तका भूत्वा विदेशीयान्नपि वेदान्त भावैः शिक्षितान् करिष्यामः । प्रत्येको मनुजः सूक्ष्मदृष्टया पश्यन् स्थूले विश्वासं न कुर्वन् मर्यादां स्थिरां विधास्यति, मानवेभ्यो यथायोग्य मधिकारं ददानः परोपकार वृत्तिमयं वेदान्तं स्वयमेव ज्ञास्यति, सच्चक्षुषा सूक्ष्मविचार एव चरित्र निर्माणम् । अनेन चरित्र बलेन जगतां स्थूलभावान व पदार्थान्ने कत्रीकृत्य सूक्ष्मविचार मन्येभ्यो वितरन् मानवो ब्रह्मसादृश्यं प्राप्य वेदान्त तत्त्वस्य भूषणं जायते, दानेनैव मनुजो मानवता मधिगच्छति, यदि व्यसनी पतितचरित्रः कोऽपिवर्तते, नाऽसौ दातु मुत्सहते,

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n6/mode/1up

2010-12-27 Before -Aagam (Bhavishya) Vaani Bhag 2 (1487)

यत्तस्य पार्श्वे न विद्यते किञ्चिदपि, यस्याऽन्तिके ऽस्तिकिञ्चित्, स एव वितरति । सच्चरित्रं बिना न किमपि सूक्ष्मधनम् । यन्नित्यं स्थिरं भवेत् । अत एव चरित्रं निर्मातुं बालेभ्यः स्थिर-प्रज्ञाया आवश्यकीय उपदेशः । येनेदानींतना बाला । [सोत्साहं सकलं कर्म कुर्वन्तः स्थिरां बुद्धिमाप्स्यन्ति, सर्व एवं स्थिरं सुखं-चिकीर्षति, यदिसुखोपायः प्रकटितः स्याद् विद्वद्भिस्तर्हि सर्वे मनुजाः सरलतया तमनुसरिष्यन्ति, न परस्परं विरोधिनः प्रभविष्यन्ति अतः सूक्ष्म भावैर्जगत् सत्यमिति नियमस्य प्रचारो हितकरो वर्तते । जगत् सत्यं प्रकृतिरपि सत्या वयं सत्या अस्माकं क्रियाः सत्याः । एवं ज्ञानेनात्महत्यादिदोषं न विधास्यन्ति पापिनः अपितु स्वपापानि पुण्येषु परिवर्त्स्यन्ति । शृण्वन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्रा इति वेद वाक्यं तदैव सत्यं भवति, यदा जीवितानां ज्योति रधिगमिस्यन्ति मनुजाः ! एतं भावमाश्रित्या-त्मज्योतिर्विरचिता मया । यदि काऽपिस्यात् त्रुटि स्तर्हि संशो-धनीया बुधैः । यत्शिस्योऽहं विदुषाम् आत्मविद्यामिति ।

श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य महामण्डलेश्वराणां जूना पीठाऽधिपतीनां स्वामिपरमानन्दनाम्नां शिष्येण हरिहराश्रमस्थेनाचार्य स्वाम्यानन्द गरिणा प्रणीतेयं भूमिकाऽत्मज्योतेः—

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n7/mode/1up

2010-12-27 Before -Aagam (Bhavishya) Vaani Bhag 2 (1487)

realpatidar.com

ॐ

ॐ नमो जय श्री सत्सत् हरी ॐ

" इदम् सत्य सनातन श्री सतपन्थ की जय "

" ॐ नमो जम श्री हरी ॐ सत्सत् श्री गुरुकृपा हि केवलम् "

धर्मस्य तत्वम् निहितम् गुहायाम् "महाजनोयेन गतः सपन्था"

--:परम परमेश्वर पिता:--

प्रथमतः— वह निःसन्देह एक है ।

स एष एक, एक वृदेके एव ॥ २० ॥

सर्वे अस्मिन देवा, एकं वृत्तो भवन्ति ॥ २१ ॥ अ. १३-४

वह एक है । वह अकेला अखण्ड व्यापक है । निःसन्देह एक ही है । सभी अन्य देवो उसीमें एकरुप होते है ।

वह परमेश्वर केवल एक ही है । निःसन्देह उसीके समान दुसरा कोई नही है ।

--:सबका पिता:—

स नं पिता जंनिता स उत, बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा वे देवानां नामध एकं एव, तम संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥५-१-३

वह ईश्वर हम सबका पिता, उत्पादक और बन्धु है । वही सब स्थानो और भुवनोको यथावत जानता है । उसी अकेले ईश्वरको अन्य सम्पूर्ण देवो के नाम दिये जाते है, और संपूर्ण भुवन उसी प्रशंसनिय ईश्वरको प्राप्त करने के लिये घूम रहे है ।

इसी वास्ते—अपनने भी उस जगत्पालक जगतिपताको एक क्षण के लिये भी भुलना नहि चाहिये, और अपने संसारिक सुख के लियेः—स्वयं भगवान से भी कुछ मांगनेमें "लज्जा, शर्म" का अनुभव करना चाहिये । परमेश्वर के उपर पूर्ण निर्भरता अथवा "तवक्कुल" के भावको सदाये बनाये रखना, वह अपना एक मात्र कर्तव्य समझना चाहिये, और कहना चाहिये किः—हे प्रभोः-

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n8/mode/1up

2010-12-27 Before -Aagam (Bhavishya) Vaani Bhag 2 (1487)

realpatidar.com

यदि मै तेरी प्रार्थना केवल नरक यंत्रणासे बचने के लिये करता होऊ तो; मुजे नरकमें डाल रख, और यदि स्वर्ग-सुख के लिये; आपकी प्रार्थना करता होऊँगा तो, भी तू मुजे वह स्वर्ग-सुख से सदा के लिये बन्चित रखाकर, किन्तु, यदि मै तेरी उपासना केवल तेरे लिये ही करता होगा तो, तू मेरे लिये अपने शाश्वत सौन्दर्य एवं माधुर्य प्रगट करनेमें कभी विलम्ब न कर।

"तस्माच्छास्त्र प्रमाणम्—"कृष्णं वन्दे जगद्गुरु" गिताकार
"वेदशास्त्र कहे तेम करवुं सही" श्री सतपन्थ मार्गदर्शक।
श्री सतगोरपात्र ब्रह्मा ईन्द्र ईमामशाह।
श्री सतगोर शिखामण—सतपन्थ साहित्य (१००) क्रिया।

ॐ

ॐ नमो जय श्री तत्सत् हरी ॐ

प. पू. परमात्मायम् नमः, परम पिता परमेश्वरका अचिन्त्य स्वरूप—

अचिन्त्य व्यक्त रूपाय, निर्गुणाय गुणात्मने।
समस्त जगदाधार मूर्तये, ब्रह्मणे नमो नमः ॥ १ ॥

अव्यक्तरूप जो कीः—निर्गुण (गुण न होते हुवे भी) सर्व गुणवाचक, गुणात्मा=परम+महान + आत्मा=परमात्मा जो किः— समस्त सृष्टिका आधार-स्थंभ, अव्यक्त-मूर्तिरूप ब्रह्मको नमस्कार।

—:परम परमात्माकी बद्धता और मुक्तता:—

बद्धो मुक्त इति व्याख्या, गुण तो मे न वस्तुतः।
गुणस्य माया मूलत्वान्न, मोक्षो न मे बन्धनम् ॥ २ ॥

बद्ध अथवा मुक्त यह शब्द गुणोको ही लागु पडते है। मेरे (प्रभू के) ब्रह्म स्वरूपको लागु पडते नही।

भाग्यशाली ?

वेदान्त वाक्येषु सदा रमन्ता, भिक्षान्न मात्रेण च तृष्टि मन्ता।
अशोकमन्तः करणे चरन्ताः, कौपिनवन्तु खलु भाग्यवन्ता ॥ ३ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n9/mode/1up

realpatidar.com

वेद-वेदान्त की चर्चामें सदा रमते है, भिक्षासे मिले हुये अन्न उपर सदा सर्वदा सन्तुष्ट (संन्तोष) मानते है, और शोक रहित शुद्ध अन्तःकरण से पृथ्वी पर रमत (भ्रमण) करते है ऐसे कौपिनधारी साधु संन्यासि सत्य (खरेखर) भाग्यशाली है, स. धन्यवाद ।

सावधान माधुर्यमय जीवन

मधोरस्मि मधुत्तरो, मधुवान्मधुमत्तर ॥ ४ ॥
मामित्किलं त्वं, व. ना, शाखा मधुगति मिव, अथर्व वेद १-३४-४

वास्तवमें मै मध से भी विशेष मधुर हूं, जो पदार्थ के अंग-प्रत्यंगोमें मध से व्याप्त हो रहे है, उसीसे भी मै मधुर हूं ऐसी शुभ मंगल भावना करने से मनुष्य स्वयं स्वत के विचारोमें और मन वचन कर्मोमें मधुर होता है । स्वयं स्वतः के अवयवो कोः--ऐसे मधुर बनाना चाहिये किः—जैसी मध से भरी हुयी शाखामे प्रत्येक अवयव हो ।

शुभ मंगलं सावधान

युवैव धर्म शील स्यात, अनित्य खलु जिवितं ।
को. हि. जानाति कस्याद्य, मृत्युकालो भविष्यति ॥ ५ ॥

जीवनकी अनित्यताका विचार करके मनुष्यने (स्वयं) युवावस्थामें ही धर्मशील होना चाहिये । कारण, कोण जाणे कहां ? देहपांत (मृत्यु) होगा । यह भविष्यमें कोण कह सकता है ?

—:ख्याल रहे-लक्ष रहे किः—

न जातु कामात् , न भयात् , न लोभात्
धर्म त्यजेत् , जिवित स्यापि हे तो ।
धर्मो नित्य, सुख—दुःखेत्वनित्ये
जीवो नित्यः हेतुरअस्य त्वनित्ये ॥ ६ ॥

अपनी किसी भी इच्छाकी तृप्ति के लियेः—या तो भयसे, लोभसे या प्राणोकी रक्षा करने के विचारसे भी धर्म न छोडना

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n10/mode/1up

चाहिये। क्यों कि-धर्म नित्य है। और सुख-दुःख थोडे समय के लिये है। आत्मा नित्य है (परन्तु उसे बन्धनमें डालनेवाला) शरीर अनित्य नश्वर है।

--:वेद शास्त्रध्ययनका महिमा:--

स्वाध्यायायोग मासित, योगात्स्वाध्यायमामनेत ।
स्वाध्याय योग सम्पत्त्या, परमात्मा प्रकाशते ॥ ७ ॥

स्वाध्याय से योगकी उपासना करो, और योगसे स्वाध्याय का अभ्यास करो। योग और स्वाध्याय की सम्पत्ति से परमात्माका साक्षात्कार होता है।

हंसवृत्ति

अन्योन्य शास्त्रसे सार ग्रहण करने के वास्ते-हंस बनो।

असंख्य शास्त्र बहुत्लाश्वविद्या
अल्पस्य कालो बहु विघ्नताच ।
यत्सारभूत तदूपासनिय
हंसो यथा क्षिर मिवाम्बू मध्यात् ॥ ८ ॥

शास्त्र असंख्य है, और जानने-समझने जैसा बहुत है। परन्तु आयुष्य अल्प है, और विघ्न बहुत है। इसी वास्ते:— हंस जैसा जल मिश्रित दुधमें से दुध को ही ग्रहण करता है वैसे ही अपनने भी अनावश्यक को छोडकर, सार वस्तू विचारो को ही ग्रहण करना चाहिये।

--:भाषाओकी तांगड धिन्ना बाबद:--

भाषा भेदांश्च वर्तन्ते, एको न संशय. ।
पात्र द्वयं एको खाद्य, स्वाद भेदो न विद्यते ॥ ९ ॥

भाषाओमें भेद (अन्तर) हो सकता है। इसमें संशय नही परन्तु, वास्तवमें जैसे पात्र दो अथवा अधिक होते हुये भी, खाने की चीज एक ही रहती है। फिर भी खाद्यका स्वाद नही बदलता। वैसे ही भाषा कोई भी हो, तो अर्थमें भेद (अन्तर) हो सकता नही।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n11/mode/1up

realpatidar.com

--: वास्ते—आत्मज्ञानकी जरूरियात :--

नानाशास्त्रे पटेह्लोको, नाना दैवत पूजनम् ।
आत्म ज्ञान विनापार्थ, सर्व कर्म निरर्थकम् ॥ १० ॥

कितने भी शास्त्रोका पठण करो, और कितने भी देवताओका पूजन करो, परन्तु; जब तक आत्मज्ञान नहि होता, तब तक दुनिया के सभी कर्म निरर्थक, व्यर्थ है ।

नहि ज्ञानेन सदृष्यं, पवित्र मह विद्यते ॥ ११ ॥

ज्ञान के मुताबिक पवित्र अन्य कुछ भी नही । वास्ते भाषाओमें वहेम और शंका निर्माण करना महान भूल है । यही अज्ञानता है, भाषाओके साथ इर्षा अभाव प्रगट होने से साहित्य संशोधकको कुछ भी नही मिलेगा । सत्य वस्तूसे वह सदा के लिये वंचित और दुर रहेगा ।

परम परमात्माका वास्तव्य

नाहं वसामि वैकुंठे, योगि नाहं हृदये रवौ ।
मद्भक्त यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद ॥ ११ ॥

वैकुंठ मे मेरा (प्रभुका) रहना नही है । वैसे ही बडे बडे तपश्चर्यावाले योगियोके हृदयमें भी मेरा वासा नहि है । परन्तु जीस जगह पर मेरे भक्त जहां जहां मेरे नाम से भजन, पूजन, अर्चन वगेरे विधि-संघठण यज्ञ करते है वहां वहां हमेश के लिये मै तत्पर खडा हूं । "तस्माच्छास्त्र प्रमाणं कृष्णं वन्दे जगद्‌गुरू"

यज्ञ संघठण विधी

जैसे झरणा नदीको मिलने के बाद झरणा नाम वहां मिट जाता है । वैसे ही नदी सागर को मिलनेके बाद नदी नाम वहां मिट जाता है । वैसे ही जहा पर जातिय (कोमिबाद) विवाद नष्ट होकर स्वयं स जाति मनुष्य और मनुष्यताका स्वात्मानुभव होने लगता है या अगर अनुभव होता है वहां पर उस जाति गंगा नाम नदी (कोमिवाद) मिटकर ज्ञान-गति पाता है वहां पर उसीको "गतगंगा" कहते है । जहां पर जाति-गंगा

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n12/mode/1up

realpatidar.com

(कोमिवाद) विवादरूपी मैली विचार सारिणी शुद्ध और पवित्र होती है । उसीको ज्ञान-गंगा अगर गतगंगा कहते है ।

पापनाशक तिर्थक्षेत्र गतगंगा

अन्य क्षेत्रे कृत्तपापं, तिर्थक्षेत्र विनश्यति ।
तिर्थक्षेत्रे कृतपापं, वज्रलेपा भविष्यति ॥१२॥

अन्योन्य क्षेत्र--स्थानमें किया पाप, तिर्थ-क्षेत्र गतगंगा मे नष्ट (नाहिसा) हो जाता है, परन्तु ख्याल रहे कि:--तिर्थ स्थानमें (गतगंगा) मे किया हुवा पाप भविष्य के लिये कठीण वज्र (लोहा) लेपन जैसा एकरूप होता है, और फिर मनुष्य भविष्य के लिये दुखोका भागी होता है । वैसे ही--

अनेक जन्म संसिद्धस्ततो, यान्ति परांगतिम्

अनेक जन्म के नंतर सुकृत्योकी फलसे महापुरूषोका दर्शन लाभ होता, और फिर वह जिवात्मा परमगतिको प्राप्त होता है ।

पूर्व जनमनो भाग हमारो, संचय पहले कि: उस दिन गुरूब्रह्मा० ।

अज्ञान और मूर्खता

(क) मै जब आप लोगोका यह श्रद्धा समारोह देखता हूं तो, एक ही साथ मेरा दो बातो पर ध्यान चला जाता है कि यह शरीर "अमृत" की यात्रा करनेमें साधन बनता हैं । इसिलिये इसीकी जयन्ति मनाना टीक है। किन्तु साथ ही यह भी सोचता हूं कि--जो यह समझता है कि, मैं आत्माको जान गया, मैने भगवानको पा लिया । वह अवश्य ही अज्ञान और मुर्खतामें पडा है । क्यों कि:--" अविज्ञातं विजानताम " जिन्हें उसका साक्षात अनुभव है । वे जानते है वह कितनी अज्ञात वस्तु है ।

(ख) जीस पर प्रभुकी कृपा हो जाती हैं, उसे अपना अज्ञात और अपनी मूर्खता पहले दिखाई देती है । उसे इतने बडे प्रकाशका अनुभव होता है कि:—वह अपने ज्ञान और

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n13/mode/1up

realpatidar.com

अपनी विद्याको सदा अज्ञान और अविद्या समझा करता है। यही उसके विनय और दैन्यका कारण होता है।

(ग) जब तक मनुष्यको अज्ञानका अनुभव नही होता, तब तक सच्चे ज्ञानका उदय नही होता, यह व्यवहार और भगवत भजन इस दोनो क्षेत्रोका अनुभव तत्व है।

निन्दा और अहिंसा

व्यवहार पुरुष और साधक इन दोनो को निन्दासे लाभ होता है। निन्दा को प्रेमसे सुनने से और हृदयमें शान्ति रखकर शीतल वाणी बोलने से मनुष्य "अहिंसा" का सच्चा अभ्यास करता है।

'अहिंसा' का व्रति सदा सत्यकी खोज करता है। अतः निन्दा सुनते हो वह दो सत्योका अनुभव करता है। (१) एक तो मेरे जीवनमें कोनसा गुण अथवा दोष है? जिसने ईस निन्दा को जन्म दिया है। और (२) दुसरा वह यह भी समझता है की निन्दा करनेवाला और कुछ नही कर सकता, केवल मुहं ही चला सकता है। अत: उससे कोई भी भय नही है।

आतमदोष स्विकृति

मै जब भारतके अनेक नगरो और ग्रामोमें घूमता हूं तो, देखता हूं कि:—व्यवहार के सभी झगडे और झंझोटाका कारण एक ही है कि:—"पर छिद्रान्वेषण" जब मै भारत के आश्रमो और साधना गृहो को देखता हूं तो वहाँ के विकास और वैभवका कारण आत्मदोषोका स्वीकार और सुधार है। मै सदा सर्वदा प्रभुसे यही मनाता हूं कि:—हमारे भोले भारतीयोको आश्रमोका यह प्रसाद मिल जाय कि वे "पर छिद्रान्वेषण" छोडकर "आत्मदोष दर्शन" करने लगेंगे। आपसे आप उन्हे मेल और शान्तिका मार्ग मिल जायगा।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n14/mode/1up

realpatidar.com

ॐ

ॐ नमो जय श्री तत्सत हरी ॐ

सर्व साक्षीभूत देवनू शरण

ॐ यो ब्रह्माणं विध धाति पूर्व, यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देव मात्म बुद्धि प्रकाश, मुमुक्षुर्वै शरणमहं मपद्ये ॥ २ ॥

जे (परमात्मा सृष्टिनी) आदिमां ब्रह्माने उत्पन्न करे छे अने जे तेमने प्रसिद्ध वेदो आपे छे ते स्वबुद्धिना साक्षि देवनुज हुं मोक्षार्थो (थयोछतो) ज शरणे जाऊ छुं ।

प्रथमतः—एक एव पुरावेदः, पूर्व प्रथम समयमां वेद एकज हतो, श्रीमद्भागवतम ९-११-४८

ॐ सत्यं ज्ञानमनन्त यन्निष्कलं निष्क्रीयं परम ।
अद्वितिय निर्षिशेषं ब्रह्म तत्समुपास्महे ॥ १ ॥

अर्थातः—त्रणे कालमां एकजरूप रहेनारा, अनन्त, ज्ञाननिधि कला तेमने क्रिया भी रहित होवा छताय सकल सृष्टिना एक मात्र अधिष्टान अनुपमेय अने अद्वितीय अखिल ब्रह्मांड ने समावी राखनारा प्रणव परमात्मा श्री नारायण देवने प्रारंभमांज उपासना आर्जव वि. वि. वि. करू छुं के ते बहुत जाणे छे ।

शुभ मंगलाचरण

ॐकार विन्दु सयुक्तं, नित्य ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षद चैव, ॐकाराय नमो नमः ॥ १ ॥

कामनाओनी सिद्धि तथा मोक्षदाता बिन्दु (०) सहित (जे) ॐकारनु योगीयो नित्य ध्यान धरे छे ते ॐकारने वारंवार नमस्कार ।

ॐ नमस्ते ते सते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्व लोकाश्रयाय ।
नमोऽद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाथ, नमो ब्रह्मणे स्थापिने शाश्वताय ॥२॥

जगतना कारणरूप अने सत स्वरूप, हे परमेश्वर तमने

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n15/mode/1up

realpatidar.com

मस्कार करु छु । अने सर्वे व्यापक सनातन ब्रह्माने हुं
कार करू छुं ।

वमेकं शरण्यं, त्वमेकं, वरेण्य, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं ।
ः जगत्कर्तृपातृ प्रदर्तु, त्वमेकं परम निश्चिलं निर्विकल्पम् ॥३॥

तमेज एक शरण लेवा योग्य छो । तमे एक इच्छवा लायक वा स्विकारवा जेवा छो, तमेज एक जगतना पालक, अने ानाज प्रकाशथीज प्रकाशमान छो । अने तमे ज एक सर्वथी अचल अने विकल्प रहित छो ।

ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं, केवलं ज्ञान मुर्तिम् ।
द्वान्द्वातीतं गगन सदृशं, तत्व मस्यादि लक्ष्यम ॥
एकं नित्यं विमल मचलं, सर्वाधि साक्षिभूतम् ।
भावातितं त्रीगुण रहितं, सद्गुरू तं नमामि ॥ ४ ॥

ब्रह्मज जेनो आनन्द छे । मोक्ष सुख आपनार केवल आत्म-रूप ज्ञाननी मुर्तिरूप, सुख-दुःखादि जोडकाथी मुक्त, आकाश ां निर्लेप अने गंभीर "तत्वमसि" आदि मंत्रोना लक्ष्यार्थरूप ः नित्य, निर्मल, अचल, सर्व प्राणी मात्रना बुद्धिना साक्षिरूप , मारु एवां) सर्वे भावोथी अतीत अने त्रणे गुणोथी रहित ा ते श्री सतगुरूने हुं नमन करु छु ।

ॐ शान्ताकारं भुजंग शयनम् , पद्म नाभं सुरेशम् ।
विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगम् ॥
लक्ष्मिकान्तं कमल नयनं, योगिभि ध्यानि गम्यम् ।
वन्दे विष्णु भव भय हरं, सर्व लोकैक नाथम् ॥ ५ ॥

शान्त आकृतिवाला, शेषनाग पर शयन करनारा, जेनी ाभी कमलमांथी कमल निकळ्यु छे एवा देवोना पण ईश्वर, गतना आधार, आकाश पेठे व्यापक, मेघना जेवां शाम वर्ण-ाला, सुन्दर अंगवाला, लक्ष्मजीना स्वामि, कमल जेवां नेत्र-ाला, योगियोने ध्यान द्वारा प्राप्त थनारा, संसारनो भय हर-

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n16/mode/1up

realpatidar.com

नारा, अने सर्व लोकोना एकज नाथ श्री विष्णू भगवानने हुं नमस्कार करू छुं ।

ॐ वन्दे देव मुमापति सुर गुरू, वन्दे जगत्कारणायं ।
वन्दे पन्नग भूषणं मृगधरं, वन्दे पशुनां पतिम् ॥
वन्दे सूर्य शशांक वन्हि नयनं, वन्दे मुकुन्दं प्रियम् ।
वन्दे भक्तजनाश्रयंच वरदं, वन्दे शिवम् शंकरम् ॥ ६ ॥

उमापति, सूरगुरू, देवने हूं नमस्कार करु छुं । जगतना कारणरूपने नमस्कार, सर्पना आभूषणवाला, मृगधारी पशुपतिने हूं नमस्कार करु छुं । सूर्य, चन्द्र अने अग्नि नेत्रवालाने हूं नमस्कार करु छुं । मुकुन्द (विष्णु) जेने प्रिय छे एवा शंकरने नमस्कार । भक्तजनोना आश्रयरूप अने वर (आशिर्वाद) आपनारने नमस्कार अने कल्याण स्वरूप एवा भगवान शंकरने हुं वन्दु छुं ।

ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय ।
लम्बोदराय सकलायं, जगद्धिताय ॥
नागा ननाय श्रुतियज्ञ विभुषिताय ।
गौरी सुताय गणनाथ, नमो नमस्ते ॥ ७ ॥

विघ्नोने दुर करनारा, वरदान आपनारा, देवोने प्रिय, मोटा पेटवाला सर्वस्व, रूप, जगतनु हित करनारा हाथीना जेवा मुखवाला, वेद अने यज्ञना शणगाररूप, श्री पार्वतिजीना पुत्र हे श्री गणपति देव तमने वारंवार नमस्कार हो ।

जगत चक्षु सूर्यनारायणनी स्तुति

ॐ नमो सवित्रे जगदेक चक्षुषा ।
जगत्प्रसुति स्थिति नाश हेतवे ॥
त्रयी समाय त्रिगुणात्म धारिणे ।
विरंची नारायण शंकरात्मने ॥ ८ ॥

जगतनी एक आंख रुप जगतनी उत्पति स्थिती अने लयना
realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n17/mode/1up

realpatidar.com

हेतुरुप त्रण वेद रुप त्रिगुणात्मक ब्रह्म, विष्णु अने शीवरुप श्री सूर्य नारायणने हुं नमस्कार करु छुं ।

परम परमेश्वरी विद्या देवीनी स्तुति

ॐ शुकलां ब्रह्म विचार सार, परमाद्या जगद् व्यापीनीम् ।
वीना पुस्तक धारीणी, भयदा जाडयान्ध कारां पहाम ॥
हस्ते स्फटिक मालिकां, विदधति पद्मासने संस्थिताम ।
बन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम सारदाम ॥ ९ ॥

श्वेत ईश्वरना विचार साररुप श्रेष्ठ आद्य जगतमां व्यापेला विणा अने पुस्तक धारण करनारा । अभय आपनारा । अज्ञानरुप अंधकारने टालनारा । हाथमां स्फटिक मणोनी माला धारण करनारा । पद्मासन उपर बीराजेला अने बुद्धि आपनारा । हे परमेश्वरी भगवती देवी शारदाने हुं वंदन करु छुं ।

गुरु प्रणाम

ॐ अज्ञान तिमिरान्धस्य, ज्ञानान्जन शलाकथा ।
चक्षुरु न्मीलित येन, तस्मै श्री गुरु वे नमः ॥ १ ॥

अज्ञानरुप तिमिर रोगथी आंधळा थयेला मनुष्योना जेमणे ज्ञानरुप अंजन आंजवा शरी वडे ज्ञान नेत्रो उघाडया छे । ते विज्ञाननी शोभायुक्त श्री गुरुदेवने मारा नमस्कार हो ।

ॐ अखंडा मन्डलाकारं, व्याप्त येन चरा चरम ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ २ ॥

अखंड मंडलाकार स्थावर जंगमात्मक सर्व दृश्य प्रपंच जेना वडे व्याप्त छे अर्थात समग्र विश्वमां जे व्यापि रहेला छे ते सच्चिदानंद स्वयं ज्योति पद जेमणे देखाडयु छे. ते श्री गुरुदेवने मारा नमस्कार हो ।

ॐ ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम् ।
मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा ॥ ३ ॥

realpatidar.com

ध्याननुं मूल (ध्यान करवा योग्य) गुरुनी मूर्ति छे अने

https://archive.org/details/bk1487/page/n18/mode/1up

realpatidar.com

पूजानुं मूल (पूजा करवा योग्य) गुरुनां चरण कमळ छे । मंत्रनुं मूल (विचार करवा योग्य) गुरुनां वाक्य छे । तेमज गुरुनी कृपाज मोक्षनुं मूळ (कारण) छे ।

ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा ।
गुरु रेव परंब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ ४ ॥

गुरु ब्रह्मरुप छे । गुरु विष्णुरुप छे । गुरु सदाशिव रुप छे । अने गुरु परब्रह्म छे । (एवा शब्द गुरु अने परब्रह्मनो अभेद निश्चय करावे छे) एवा परमात्मा स्वरुप श्री सद्गुरुने मारा नमस्कार हो ।

ॐ सर्व श्रुति शिरो रत्न, बिराजित पदाम्बुत ।
वेदान्त पद्म सुर्याय, तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ ५ ॥

महा वाक्योनी सुशोभित करनार चरण कमळवाळा अर्थात् जे वेदना तत्वमस्यादि वाक्योनो उपदेश करनारा छे । ते वेदान्तरुप कमळने प्रफुल्ल करनार सूर्यरुप श्री सद्गुरु देवने मारा नमस्कार हो ।

ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्त, व्योमातितं निरंजनम ।
नाद बिन्दु कलातितं, तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ ६ ॥

जे चैतन्य स्वरुप नित्य अविनाशी शान्त आकाशादि सूर्य, प्रपंचथी रहित शुद्ध निर्लेप तथा बिन्दुनाद अने कलाथी रहित छे । ते सद्गुरु देवने मारा नमस्कार हो ।

ॐ नित्यं, शुद्धं निराभासं, निराकारं निरंजनम ।
नित्य बोध चिदानन्द, तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ ७ ॥

त्रण काळमां नाश न पामे एवा अविनाशी, माया (अज्ञान) रुपी मलीनताथी रहित, जीव ईश्वरादिक भेदना आभास रहित अथवा निरंतर अखंड, दिप्तीमान निराकार, निर्लेप, नित्य, अखंडित ज्ञान स्वरुप, चित्त अने आनंद स्वरुप एवा श्री सद्-गुरुने मारा नमस्कार हो ।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n19/mode/1up

realpatidar.com

ॐ अहंमेव परंब्रह्म, मयी सर्व प्रकल्पितम ।
ज्ञानं यत्कृपया, तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ ८ ॥

हुं परब्रह्म ज छुं । (आ नामरुप) सकल (संसार) मारामां कल्पित छे । एवुं जेमना कृपा वडे जाण्युं ते श्री सद्गुरुने मारा नमस्कार हो ।

ॐ अहं ब्रह्मेति विज्ञानं, जातं यस्य प्रसादतः ।
दत्तं एना भयंदानं, ब्रह्मानंद नमो नमस्तुते ॥ ९ ॥

हुं ब्रह्म छुं एवी विज्ञान जेमनी कृपाथी थयुं, अने जेमणे अभयदान आप्युं तेवा हे ब्रह्मानन्दजी ! तमने नमस्कार हो ।

ॐ अखंडानंद बोधाय, शिष्य संताप हारिणे ।
सच्चिदानंद रुपाय, योगानंद नमो नमः ॥ १० ॥

अखंडानंद तथा बोध स्वरुप शिष्यना (जन्म मरणना) संताप अने क्लेशने हरवावाळा सत, चित, आनंद, स्वरुप एवा हे योगानन्दजी ! आपने वारंवार नमस्कार हो ।

—: देव–गुरु–पूजन समये :—

नमोऽस्त्वनन्ताय, सहस्त्र मूर्तये
सहस्त्र पादाक्षि, शिरोरु बाहवे ।
सहस्त्र नाम्ने, पुरुषाय शाश्वते
सहस्त्र कोटी, युग धारिणे नमः ॥ १ ॥

हजारो स्वरुपवाळा, हजारो पग, आंखो, मस्तक, जांगा, तथा हाथवाळा अनंत स्वरुपने नमस्कार हो । हजारो नामवाळा सनातन पुरुष, हजारो प्रकारना शरीरोने धारण करनार (परब्रह्म) ने नमस्कार ।

ॐ नमो कमळनाभाय, नमस्ते जल शायिने ।
नमस्ते केशवानन्त, वासुदेव नमोस्तुते ॥ २ ॥

realpatidar.com

जेमनी नाभीमां कमळ छे एवा भगवानने नमस्कार । जळमां

https://archive.org/details/bk1487/page/n20/mode/1up

realpatidar.com

शयन करवावाळा तमने नमस्कार । हे केशव तमने नमस्कार । हे अनंत, हे वासुदेव, तमने नमस्कार ।

वासनाद्वासुदेवस्य, वासितं भुवन क्षयं ।
सर्वं भूतनिवासीऽसि, वासुदेव नमोस्तुते ॥ ३ ॥

वासुदेवनी वासना (भावना संकल्प) थी त्रणे लोक वसेला त्रणे लोकनो स्थिती छे । हे वासुदेव ! सर्व भूतोनुं तमे निवास स्थान छो । एवा तमने नमस्कार ।

ईश्वरो गुरु रात्मेति, मूर्ति भेद विभागीनी ।
व्योम पद, व्याप्त देहाय, दक्षिणा मूर्तये नमः ॥ ४ ॥

ईश्वर गुरु अने आत्मा एम मूर्तिना भेदथी जेमना रुपमां भेद भासे छे एवा महाकाशनी पेठे व्यापक एवा देहधारी श्री दक्षिणामूर्तिने नमस्कार. ।

कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सार भुजगेन्द्र हारं ।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि सहितं नमामिः ॥ ५ ॥

कपूरना जेवा श्वेत वर्णवाळा करुणाना अवतार संसारना साररुप उत्तम भूजंग (सर्प) ना जेमने हार छे एवा तथा सर्वदा हृदय कमळमां विराजमान भवानी सहित सदाशीवने हुं नमस्कार करु छुं ।

निधये सर्व विद्यानाम, भिषजं भव रोगिणाम ।
गुरुवे सर्व लोकानाम दक्षिणा मूर्तये नमः ॥ ६ ॥

सर्व विद्याना भंडार संसार (जन्म मरण) वाळा रोगीओने औषधिरुप अने सर्वे (चौद) लोकोना गुरु स्वरुप श्री दक्षिणामूर्तिने हुं नमस्कार करु छुं ।

असित गिरि समं, स्यात्क ज्जलं सिन्धु पात्रे
सुर तरुवर शाखा, लेखीनी पत्र मूर्वि ।
लिखती यदि सारदा, गृहित्वा सर्व कालं
तदपि तव गुणा नामिशं, पारं न याति ॥ ७ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n21/mode/1up

realpatidar.com

महासागर जेवा खडीयामां नीलगीरी पर्वत जेटली शाही नाखी श्रेष्ठ देवताई झाडनी कलम लई, पृथ्वीना पड जेवडा कागळ उपर (सर्वथी श्रेष्ठ लखबावाळी) सारदा (सरस्वती) आखी जिंदगी लख्या करे तो पण हे ईश्वर तारा गुणोनो पार आवे तेम नथी ।

सर्वदा सर्व कार्येषु, नास्ति तेषां मंगलम ।
येषां हृदिस्थो भगवान, मंगलायतनो हरि ॥ ८ ॥

जेमना हृदयमां सर्व मंगलना धामरुप भगवान श्री हरि बिराजमान होय छे, तेमनुं सर्व कार्यमां सदा सर्वदा मंगल ज थाय छे । अमंगल थतुं नथी ।

विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदाः ।
विपदं विस्मरणं विष्णोः संपत नारायण स्मृतिः ॥ ९ ॥

विपतिओ साची विपत्तिओ नथी । अने धन दोलत साची संपति नथी । विष्णु विस्मरण ज साची विपति छे । अने नारायणनुं स्मरण ज साची संपति छे ।

सर्वत्र सुखिना सन्तुः, सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःख माप्नुयात ॥ १० ॥

आ जगतमां सर्व प्राणी सुखी थावो । सर्वे कोई निरामय दुःख रहित निर्विकार थाओ । सर्वनुं कल्याण थाओ । सर्व लाभकारक हितकारक अवसर जुओ । अने कोई पण प्राणीने किन्चित मात्र पण दुःख ना थाओ ।

ॐ सहना व वतुं, सहनो भुनकतु ।
सह वीर्य करवा वहै, तेजस्विना वधि तमस्तु ॥ ११ ॥
मां ाविद्विषां वहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

ते (परमेश्वर) हमो बन्ने (श्रोता वक्ता) नुं निश्चय रक्षण करो । ते (परमेश्वर) हमो बन्नेने (विद्याना फळनो) भोग करावो हमो बन्ने विद्यानी प्राप्ति माटे सामर्थ्य प्राप्त करीए हमारा बन्नेनुं भणेलुं तेजस्वी थाओ । हमो बन्ने पर द्वेष न करीए ।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n22/mode/1up

2010-12-27 Before -Aagam (Bhavishya) Vaani Bhag 2 (1487)

realpatidar.com

श्रीमद् भागवत की आगम (भविष्य) वाणी

स्कन्ध १२ अध्याय–१

पांच हजार वर्ष पहेले प. पू. श्री वेद–व्यासजीने श्रीमद्–भागवतमें जो भरत–खण्डका भविष्य आंकित किया हुवा है। वह आज सत्य होता हुवा आया है, अैसा प्रतित हो गया है और जो शेष बाकी होनेवाला है। वह भी होकर रहेगा अैसा माननेमें कुछ भी बान्धा नहीं।

अनु गंगा मां प्रयागं, गुप्ता मोक्ष्यन्ति मेदीनीम्।
सौराष्ट वान्त्या मीराश्च शुद्रा अर्बुद मालवान् ॥

वात्या द्विजा भविष्यन्ति शुद्र प्रायह जनाधिपाः।
सिन्धो स्तठ चन्द्रभागा कौन्ती काश्मीर मण्डलम् ॥

मोक्ष्यंति शुद्रा व्रात्प्राश्च म्लेन्छाश्चा ब्रह्मवर्चसः।
तुल्वकाला इमे राजन् म्लेन्च्छ प्रायाश्च भूमृतः ॥

एतेऽधर्मा नृत पराः फल्गुवास्तीव मन्यवः।
स्त्री–बाल गो द्विज धनाश्च परदाह धना हताः ॥

उदितास्त मित प्राया अल्पस्त्वाल्पकायुष्यः।
अ सस्कृतः क्रिया हिना रजसा तमसा वृत्ताः ॥

प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेन्च्छा राजन्य वेषिणः।
उदितास्तमित प्राया, हर्ष शोकाद विव्हलाः ॥

तत्रस्थास्ते जनपदाच्तच्छाला सार वादिनः।
अन्योन्यतो राजमिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ॥

अर्थः – पूर्वे गंगासे लेकर प्रयाग तक सौराष्ट, मध्य–भारत, मारवाड संयुक्त प्रदेश माळवा, महाराष्ट्र वगैरे प्रदेशो के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र एव अति शुद्र अन्त्यज (चोखा मेलाकी एक उपजाति) जैसे हो जायेगे।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n23/mode/1up

realpatidar.com

और प्रजा के अधिपतियो राजा, महाराजाओ और राज कर्तायें शुद्र पतित जैसे हो जायेंगे।

सिंधु नदी किनारे के देश, सिन्धु-चंद्रभागा चीनाव नदी पन्जाब, काश्मिर वगैरे ब्रह्म तेजसे हीन होकर शुद्र सरीखे द्विज अन्त्यज और मुसलमान राज्य करेंगे। यह सभी कलीयुग को अनुसारता: आचरण वाले राजकर्ता ये म्लेन्च्छ जैसे हो जायेंगे। वह सभी धर्महीन होयेंगे। धर्मको नहो मानेंगे, झुटा ही झुटा बोलेंगे। प्रजाके पाससे ज्यादा लेंगे और कमती देंगे, उनके क्रोध, गुस्सा बहोत रहेगा। वह स्त्री बालकोंकी कतल करेंगे। गऊओंकी कत्तल करेंगे। ब्राह्मणोको मारेंगे। परायी स्त्रीयोंका और पराया धनका अपहरण करेंगे। वह सत्ता स्थान उपर आने के बाद:--थोडे ही समयमें साथीयोंसे सत्ता जमाकर बेठेंगे। वैसेही अस्तमन हो जायेंगे।

वह शारीरिक-मानसिक बलसे कमी होंगे। वह अल्पायुषी होंगे। वह कोई भी जात के संस्कारको शास्त्राधिनतासे मानेंगे नही। मर्यादाहीन होयेंगे। वह कोई भी शास्त्र के विधि-विधान नित्य-नैमित्यकी धार्मिक क्रिया कर्म करेंगे नहीं। और रजोगुण तथा तमोगुण से भरे हुये रहेंगे। राज्यशासन-सत्ता स्वय-स्वतः के हाथमें लेकर राज्य चलावेंगे। उसमें प्रजाका सर्वस्व हक छीनकर खा जायेंगे। इस म्लेन्च्छो और राज कर्ताओंका वेष-धारण करनेवाले प्रजाको धर्महीन--सत्ताहीन पराक्रमहीन बना देंगे, उनका स्वभाव घडी पकमां राजी-खुशी और घडी पकमां क्रोधी होगा। उनकी प्रजा भी इन राजकर्ताओंका जैसे ही "यथा: राजा तथाः प्रजा" ऐसे ही स्वभाव वाली होगी। और वैसे ही आचरण करने वाली भी होयगी। थोडे ही समयमें उनका पतन हो जायेगा। सत्ता के उपर आये हुये वह अन्दरो अन्दर (यादवो जैसा यादवस्थली करके) लड मरेंगे। नंतर थोडे ही दिनोमें धर्म राज्य स्थापित होगा और प्रजा वर्णाश्रम धर्ममें प्रवृत्त होगी। यज्ञ-यागादि धर्म, धार्मिक कार्य होते रहेंगे, और प्रजा सुख समृद्धि शाली होगी।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n24/mode/1up

भविष्य पुराणकी आगम (भविष्य) वाणी

ब्रह्मा पुत्रो विश्वकर्मा, तस्य पुत्रो मयासुराः ॥
तस्य पुत्रा गौर मुखा, द्विपास्तरे निवासिनः ॥ १ ॥

शिल्प शास्त्रेषु कुशला, नाना चातुर्य सयुता ॥
करिष्यान्त कलौ सार्वभौम, स्व तिचनै सभैः ॥ २ ॥

सु-मेरु सन्धिजा देशो देशा, रोमर्त्यिजा पराः ॥
तदंन्तरे च ये देशास्तन्त्र, राज्य भविष्यति ॥ ३ ॥

स्वानागेषु तान्स स्थाप्य दिगार व्यवहार कृत ॥
वर्षाप्य शौति राजस्य, तपश्चा दुद्विग्नता व्रजेत ॥ ४ ॥

उत्तराधिश नृपतिः, क्षय नामाख्यवत्सरे ॥
आपत्य समाहाविरेः सह युद्धं भविष्यति ॥ ५ ॥

पताका भस्म काष्ठायान्कृत्वा म्लेन्च्छान्हनिष्यंति ।
ब्रह्मायणांश्च तुवर्णान् स्थास्वाचारे करिष्यति ॥ ६ ॥

यज्ञा यागादिक सुप्त सर्व तत्प सरिष्यति ॥
शत वर्षान्तरं राज्यं, निष्कलंक करिष्यति ॥ ७ ॥

पश्चात्त हलाहल युगे कलाचाच्छांदये न्मेही ॥
चतुर्वर्णक वर्ण स्यात्प शुवत्कामललालसा ॥ ८ ॥

सूतार्थ—ब्रह्माका पुत्र विश्वकर्मा, उनका पुत्र मयासुर था। उनका पुत्र गौर मुह-चेहरेवाले और दुसरे एक बेट (द्विप) में रहनेवाले शिल्प-यन्त्र कला-कौशल्यमें कुशल कारीगर होंगे। वह कलीयुगमें सार्वभौम राज्य करेंगे। वह सुमेरू पर्वतकी आस पास के देशो उपर भरत-खण्ड वगेरे। पूर्व के, भूमध्य समुद्र के युरोप के बहोत देशो पर राज्य करेंगे। इन लोगोका चक्रवर्ति राज्य ८० असी वर्ष टिकेंगा। उसके बादः—कितने कवर्ष क्षय और नन्द नाम के संवत्सरमें उत्तर देश के राजा बडे मोटे

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n25/mode/1up

realpatidar.com

जैसे लश्कर के साथ भरत-खण्डमें आकर म्लेच्छो को मारकर धर्म-राज्यकी स्थापना करेंगे, और ब्राह्मण वगैरे चारे वर्णको स्वयं-स्वतः के वर्णाश्रम धर्ममें प्रभावित करेंगे । और बन्द हुवे जो यज्ञ यागादि फिरसे चालू करेंगे । उनका राज्य सो १०० वर्ष तक टिकेगा । नंतरः—हळाहळ कलीयुगमें चारे वर्ण मिटकर एक ही थड, एक जात, मुद्राचारको प्राप्त ऐसे पशु जीवन के जैसे काम-विलास, वैभवमें लोक पड़ेंगे उसी ऐसे रीतिसे जनता, मनुष्य मनुत्व को गुम कर देगा।

हसो यथा पाठक-गणो वाचको सर्व वर्तमान पुस्तक पढकर एक निर्णय पर आवे कि:—कलियुग के अदभूत भविष्य वेत्ता कोण ? प्रथम वांचे और नंतर विचार करे ।

धूम्र-पान

मानो के ना पण मानो ! सोचो के ना पण सोचो शुद्रत्वकी टोच (शिखर) मर्यादा उपर जाने के लियेः—

यही प्रथम श्री गणेशाय नमः है । यानेः—कलीयुगका साथी है ।

☛ धूम्र-पान

इसी फन्दमें आनेवाले ब्राह्मण हो के शुद्र हो, हिन्दु हो के मुसलमान हो सभी एक जातके है। जहाँ एक मत है वहाँ एक जात है एक ही धर्म है, धर्म के अनेक अनेक अर्थ-भावार्थ हो सकते है। उस साथ धर्मका अर्थ "स्वभाव" भी होता है, और जहा "स्वभाव" बदल गया, वहाँ धर्म बदल गया। जात बदल गयो, फिर बाकी क्या रहा ?

थोबो, वाचो, विचारो, सोचो और समझो ।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n26/mode/1up

ॐ

ॐ नमो जय श्री सत्सत् हरी ॐ

धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, महाजन्ते येन गतः सपन्थाः ।
ईदम सत्य सनातन आर्य, पवित्रोत्तम आदर्श युक्तम् ॥

श्री सतपन्थ धर्म की जय

पद्म–पुराण

धुम्रपानं रतं विप्रदानं, कृत्वेतियो नरः ।
दातारो नरकं यान्ति, ब्राह्मणो ग्राम शुभकाराः ॥ १ ॥

सूत्रार्थः—तंमाखु सेवन करनेवाला जो ब्राह्मण हो और उसको दान (देनेवाला) देता है वह नर्कमें जाता है और वह ब्राह्मण गायका शुकर, भुण्ड, सूव्वर का जन्म लेता हैः—

स्कन्द–पुराण

ब्रह्मा उवाच—नारद को कहते है किः—हे नारद !

घोर कलि–कलि युगे प्राप्ते, सर्वे वर्णाश्रमानराः ।
निरयेषु पतिण्यंन्ति, तमाखुं कल्प रुपतः ॥ २ ॥

सूत्रार्थः—घोर कलियुग प्राप्त होते ही । सभी वर्णाश्रम के नर (चारोवर्ण और चारो आश्रमवासी) तंमाखु के उपयोग करने से नर्कमें पडेंगे ।

स्नातानि येषु तिर्थाणि, प्रयागादिनाम कोटिशः ।
वृथैवतानि सर्वाणि भृंगी पानाश्च नारदः ॥ ३ ॥

सूत्रार्थः– हे नारद, मनुष्य प्रयागादि अडसठ तिर्थोमें स्नान किया हो, तो भी भांग पिने से सभी व्यर्थ होता है ।

उपासते तमाखु वे कली नारद ये नराः ।
क्षीण पुण्याः पतिश्यन्ति महारौरव सज्ञके ॥ ४ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n27/mode/1up

realpatidar.com

सूत्रार्थ—हे नारद! मनुष्य मात्र तमाखुका सेवन करनेसे उनका पुण्य प्राय नष्ट हो जाता है, और अन्ते वह रौरव नर्कमें पडते है।

पीतायेन तमाखु वै नरेण भुवि नारद ।
तत्पायेन भवेत् पापी म्लेन्च्छाद पिचसोऽधमाः ॥ ५ ॥

सूत्रार्थ—हे नारद, पृथ्वी के अन्दर जीस मानवीने तमाखुका सेवन किया हो तो, उसी तमाखु पिनेकी पाप से पाप करनेवाला होता है, और वह म्लेन्च्छ से भी विशेष निच पात्र-कुपात्र होता है।

व्रतानि नियमा, सर्वे यमाश्चैवं महा मुने ।
वृथैवतानि सर्वाणि तमाखु पान मात्र ॥ ६ ॥

सूत्रार्थः—तमाखु के सेवन (खाना-पिना, सूंघना अथवा अन्योन्य तरीके वपराश करनार वगेरे) से उनके व्रत नियम सभी फोगठ व्यर्थ ही होता है।

किंच योगेन ज्ञानेन, वेदेन पितृ दैवतैः ।
किंच वैविक्त मात्रेण तमाखुं चेत्पिवेन्नराः ॥ ७ ॥

सूत्रार्थः--जो पुरुष तमाखु पीता है, उसे योग प्राप्ति से ज्ञान सम्पादन करनेसे, वेदाभ्यास करनेसे, एकान्तवास करनेसे, क्या फल प्राप्ति होनेवाली है? कुछ भी होनेवाला नही है, वह सभी मिथ्या ही है।

टीपः--सभी धर्म के धर्मशास्त्र तमाखुका खंडण करते है फिर भी मनुष्य सैतानियतसे उसको विशेष करके ज्यादा वपराश करने लगता है। वास्ते—श्री सतपन्थ धर्म जिज्ञासूओने उसको जरुर छोडना ही चाहिये। और जो उसका सेवन करता होगा तो असे व्यक्तिका साथ, सोबत, संग कदापि न करना चाहिये। उसीका विश्वास और भरोसा तो कदापि न करना चाहिये।

जो चीज मनुष्य के लियेः—नर्कमें ले जानेवाली है असी रीतिसे हरएक धर्म के धर्मशास्त्र पुकार पुकार के कहते है, तो

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n28/mode/1up

realpatidar.com

फिर उस नर्कमे जानेवाले की याने नर्क को मन्जूर करनेवाले की बुद्धि कैसी होगी? और अैसेका जो विश्वास-भरोसा करो, तो वह मनुष्य भी कैसा होगा?

भागवत पुराण स्कन्ध ३ अध्याय २९ श्लोक २१-२२

अहं सर्वेषु भुतेषु, भूतात्मावस्थितःसदा।
तमवज्ञायमां मर्त्यः कुरूतेर्चा विडंबना ॥ २१ ॥
योमां सर्वेषु भुतेषु, सन्तात्मात्मा नमीश्वरम् ॥
हित्वार्चा भजते मौढयाद् भस्मन्ये वजु होतासः ॥ २२ ॥

सूत्रार्थः—सभी प्राणी मात्रमे मै अन्तर्यामि रूपसे हरहमेशा वस्ती (वसाहत) करके बैठा रहा हूं, उसकी मनुष्यने अवज्ञा करके मूर्तिका जो पूजन करता है, वह मेरी (सर्वान्तिर्यामि की) निरर्थक केवल विटंम्बनाही रहता है। वह परम-पिता परमेश्वर सभी समयमें और सभी के हृदय और सभी ठिकाणे निवास करके बैठा है! उसीको छोडकरके जो कल्याण के लिये मूर्ति पूजा किया करते है, वह मूर्खलोक भस्मके (रखोली) में घी होमने जैसा ही किया करते है।

मतलबः-जबतक मनुष्य मनुष्य के साथ सहिष्णुताका परस्परं भावयन्ताका वोधपाठ लेने-देनेका दैवनन्वदिन नही करेगा तबतक सभी दुनियाकी साधना झुठी।

ज्या लगी आत्म तत्व चीन्ह्यो नही,
त्या लगी साधना सर्व झुठी।

—भगत श्री नरसैया

ओ है सभी ठिकाणे, घट घटकी बात जाने।
उसको जो दूर माने, वह मूरख है घने रे ॥

—ब्रह्मानन्दजी

मनुष्य ही परमात्माका साक्षात सर्वोच्च मन्दिर, मस्जिद एव गिरजाघर आदि है इसलियेः—साकार देवताकी पूजा करो और वह इसी कहे हुये विचार से ही करो याने मनुष्यको

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n29/mode/1up

realpatidar.com

साथ मनुष्यने सख्यत्व सम्बन्ध स्थापित करना यही तो मानवता है । और यह असे मानवता के आधार से वह मानव है अन्यथा "निर्वैर सर्व भुतेषु" की भावना न हो तो वह मानव-मानव नही है, परन्तु मानवकी रूपमें दानव मात्र है ।

—स्वामी श्री विवेकानन्दजी

पंडित किसको कहते है

आनंदो ब्रह्मणो विद्वान, न बिभेति कदाचन ॥ श्रुति ॥

जो विद्वान ब्रह्मानन्दको पहिचानता है, वह कभी किसीसे डरता नहीं, याने शंकाशिल होता नही, कारण ॥ संशयी आत्मा विनश्यति ॥

पठका पाठकाश्चेव ये चान्धे शास्त्र चिन्तकः ॥
सर्वे व्यसनिनो मूर्खाय, क्रियावान्स पंडित ॥ १ ॥

पढनेवाला, पढानेवाला, सुननेवाला के अगर सुनानेवाला और दुसरे अन्योन्य शास्त्रोंका चिन्तवन, मनन करनेवाले यह सभी व्यसनी ही है (अर्थात—पढने सुननेमें ही खुशी रहना यह तो एक आदत ही पड गई है) यह सभी मूर्ख है, परन्तु जिसने जितना समज लीया है, उतना उसीने कार्य किया हो, तो वह पंडित है, कर्मको डरनेवाला पंडित है, परन्तु पुस्तकोका खाली-निकम्मा वगैर विचार से पढनेवाला और पढनेमें ही कार्यकी सफलता, सम्पूर्णता माननेवाला, समझनेवाला तो मुर्खता ही करता है ।

(१) पाप हो असा कमाना नहीं । (२) लडाई होवे वैसा बोलना नहीं । (३) बीमारी आवे वैसा खाना नहीं. (४) देवादार होवे वैसा खर्चना नहीं ।

यस्य सर्वे समारंभा, काम संकल्प वर्जित्तः ॥
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं, तमाहु पंडितं बुधा- गिता ॥७॥

जीसके सभी उद्योग, वासना और संकल्प याने " मैं करता

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n30/mode/1up

हुं" यह अैसा इससे अभिमान रहीत और जीनके कर्म ज्ञानरुपी अग्निसे भस्म हो गये है अैसे पुरुषको लोक पंडित कहते है ।

विद्या–विनय सम्पन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी ॥
शुनि श्चैव श्वपाकेच, पन्डिता समदर्शितः–गिता ॥ ८ ॥

विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चान्डालमें भी समभावसे देखनेवाले ही पंडित होते है । जैसे मनुष्य अपने मस्तक हाथ पैर और गुह्यादिके साथ ब्राह्मण, वैश्य, शुद्र और म्लेच्छादिकोंकासा वर्ताव करता हुआ भी उनमे आत्मभाव अर्थात् अपनापन समान होनेसे सुख और दुःखको समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतोंमें देखना अपनी " सादश्यता से " सम देखता है ।

(४) जीसके विचार और नक्की किये हुए कार्य प्रथम कोई समझता नहीं, परन्तु वह कार्य पूर्ण होने के बाद––उसकी सभीको खबर होवे उसीको पंडित कहते है ।

(५) जो स्वयं स्वतः का समय व्यर्थ गमाता नहीं, और जीसका मन काबुमें है उसको पंडित कहते है ।

(६) मनइच्छाको तजकर जो ईश्वरिइच्छाको अनुसरता हैं, वही पंडित कहलाता है ।

—: अैक्यं षटकम् :––

नाहं हिन्दु र्महमहीयो न वापि,
बौद्धो नाहं ख्रिस्तीओ वापिनाहं ।
जैनो नाहं पारसी को न वापी
राष्ट्रोन्नत्यै सनातन आर्य सतपंथी
भारतियो ऽहमास्मि...॥ ध्रुव ॥ १ ॥

शिखो नाहं नाप्यहं वा यहुदीः
शैवो नाहं वैष्णवो वापि नाहं ।

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n31/mode/1up

realpatidar.com

आपन्नाया व्यापदं मातृभूमै
उन्न त्यर्थं सनातन आर्य सतपन्थी
भारतियो ऽहमास्मि ॥ २ ॥

स्पृश्या, स्पृश्य ब्राह्मणा ब्राह्मणाद्याः
भेदां जातां भ्राकनेऽतीव काले।
नै ते रोदुं भ्रात भाव समर्था
राष्ट्रो ध्दारो भेद भावान्न सिध्दोत्
सनातन आर्य सतपन्थी, भारतियोऽहमास्मि ॥ ३ ॥

एकस्मिश्चेत्सज्ञानी प्राप्ति वासा,
काम क्रोध स्वार्थ वैरादि सग्नाः।
भूत्वा भूत्वा नाशयान्ति स्वगेहं
मौर्ख्य कीमस्यान्न् नम स्मा त्परवै
सनातन आर्य सतपन्थी, भारतियोऽहमास्मि ॥ ४ ॥

देशोन्नत्यैं स्वार्थ यज्ञं करीष्ये
देशोन्नत्यैं दीर्घ कष्टं सहिष्ये
देशोन्नत्यैं कर्मयोग विधास्ये
देशोन्न त्यायर्प यिष्यामि देहं
सनातन आर्य सतपन्थी, भारतियोऽहमास्मि ॥ ५ ॥

द्वेष, क्रोध, हिंसा, देशोन्नेत्यै
सदा परिहरिष्ये।
स्नेह, स्वार्थ, त्याग विततो योगं
तथा च वितनिष्ये
सनातन आर्य सतपन्थी, भारतियो ऽहसास्मि ॥ ६ ॥

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n32/mode/1up

ॐ नमो जय श्री हरी ॐ

इति मंगलम् क्षमा प्रार्थना

मंत्रहिनं, क्रियाहिनं, भक्तिहिनं सुरेश्वरा ॥
यत्पुजीतं मयादेव, परिपूर्णं तदस्तुते ॥ १ ॥

हे देवोनो पण नियंता देवः मंत्र विना, क्रिया विना के भक्ति विना में जे पूजा कर्म कर्युं होय, ते मारु कर्म (आप श्रीजीनी कृपा वडे) पूर्ण थाओ।

यदक्षरं पदभ्रष्टं, मात्रा हीनं च यदभवेत ॥
तत्सर्व क्षम्यतां, देव प्रसीद ! परमेश्वर ॥ २ ॥

हे देव, अक्षरो के पदोमां कई भूल थई होय अने मात्रा विनानुं जे कंई बोलायुं होय ते तमे सर्व सहन करी क्षमा करो, मने माफी आपो. अने हे परमेश्वर तमे प्रसन्न थाओ।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु श्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ ३ ॥

हे देवोना देव, मारे माता पण आप छो अने पिता पण आप छो, बंधु पण आप छो अने मित्र पण आप छो, विद्या पण आप छो अने द्रव्य पण आप छो। टूंकमां—हे सर्वेश्वर, म्हारु तो सर्व कांई एक आपज छो।

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुध्ध्यात्मनावा प्रकृते स्वभावात्।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मैं, नारायणायेति समर्पयामि ॥ ४ ॥

काया वडे, वाणी वडे, मन वडे, इन्द्रीयो वडे, चित्त वडे, अहंकार वडे अथवा प्रकृति स्वभावथी हुं जे कंई करुं छु, ते सर्व हे परब्रह्म नारायण, आपना चरण कमलमां समर्पण करुं छु।

सर्वत्र सुखिन सन्तु, सर्व सन्तु निरामयाः ॥
सर्वे भद्राणी पश्यन्तुमां कश्चिद, दुःख माप्नुयात् ॥ ५ ॥ realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1487/page/n33/mode/1up

realpatidar.com

आ जगतमां सर्व प्राणीओ सुखी थाओ, सर्व कोई निरामय दुःख रहित, निर्विकार थाओ, सर्वनुं कल्याण थाओ, सर्वे लाभकारक, हितकारक अवसर जुओ अने कोई पण प्राणीने किंचीत् मात्र पण दुःख न थावो ।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णा पूर्ण्ं मुदच्यते ॥
पूर्णस्य पूर्ण मादाय, पूर्ण मेवाव शिष्य ते ॥ ६ ॥

ते (सर्व व्यापक, निरुपाधिक, परब्रह्म) पूर्ण छे. आ दृश्य मात्र नामरुप वालु (जगत) पूर्ण छे । पूर्णथी (कारण ब्रह्मामांथी) पूर्ण (कार्यब्रह्म) प्रकाश पामे छे पूर्ण (कार्यात्मक ब्रह्म) नी ब्रह्मता, पूर्णता (एक रसतां) ने लेवा छतांय पण पूर्णज (प्रज्ञान घन पर ब्रह्म स्वरुपज) अवशेष (बाकी) रहे छे ।

श्री

शुद्धिपत्र

हिन्दी–विभाग

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
२	८	प्रथमोद्धर्म	प्रभवोद्धर्म
२	१०	विध्यते	विद्यते
१०	२४	पहिचाहु	पहुचावे
५०	२७	मजदान	यजदान

संस्कृत–विभाग

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१३	२५	निर्णिशेषं	निर्विशेषं
१३	२५	मुक्तिप्रदाथ	मुक्तिप्रदाय
१६	१४	शलाकथा	शलाकाया

realpatidar.com